

## श्रीवादिराज श्रीपादंगळवरिंद विरचित नारायणवर्म

सकल ऋषिगळल्लि हरि नम्म स्वामियागि रक्षिसु  
आलदलि मत्स्यावतारनागि  
स्थळदल्लि वामननागि रक्षिसु निम्म नेनेवरा –  
आकाशदलि त्रिविक्रमनागि रक्षिसु  
भयगळल्लि नारसिंहनागि  
मार्गदल्लि वराहनागि रक्षिसु निम्म नेनेवर –  
आश्रयदल्लि नरनारायणनागि रक्षिसु  
अयोग्यरल्लि दत्तात्रेयनागि रक्षिसु –  
कर्मबंधगळेल्ल कळेटु रक्षिसु कपिलमूर्तियागि  
प्रातःकालदल्लि केशव नम्म रक्षिसु  
सायंकालदल्लि गोविंद नम्म रक्षिसु  
विपत्तिनिंद धन्वंतरि रक्षिसु  
अन्यदेवते भजने कळेटु रक्षिसय्य  
श्रीकृष्णमूर्तियागि अज्ञानविषयगळ कळेटु रक्षिसु  
वेदव्यासमूर्तियागि कृष्णान शंखवे  
निम्म धनिदुरि राक्षसर ऐदे ओडेसि,  
भयबिडिसि लयवने माडिसि  
पूतगंधर्वरु कूष्मांड तोरिसलु  
विष्णुगदे राक्षसरु ओडेदु चूर्णव माडि  
किडिगळंते भूमि मेले आधरिसि  
शतचंद्रप्रभेयंते होळेव हरियु  
नम्म मतिवंतरु वैरिगळ कण्णिगे काणबारदु  
माडितोरिसि तम्म दिव्य तेजगळ  
धर्मविषयदलि हयग्रीवनागि रक्षिसु  
मध्याह्न कालदलि मधुसूधननागि

## श्रीवादिराज श्रीपादंगळवरिंद विरचित नारायणवर्म

सायंकालदलि श्रीवत्समूर्तियागि  
सामवेदके अभिमानियाद गरुडवाहनने  
सलहेन्न विषद भयगळ बिडिसि  
कृष्ण मुकुटधरने रक्षिसो  
नम्म प्राणेंद्रियदिंद बुद्धियिंद  
दिक्कु दिक्कुगळल्लि नारसिंहमूर्तियागि  
नारसिंह नादगळिंद ऐल्ल परियिंद भक्तरनेल्ल  
नरहरि इट्टु रक्षिसो  
गुरुमध्वरायर गुरु विश्व व्यापकर  
सुविष्णु विष्णवर मगनंते निम्म सुनाम  
ऐंदु पाडि सुखियागि जमदग्निवरद  
प्रह्लाद वरद असुरर गेलिद  
बलराम जानकीवल्लभ जय जयराम  
नित्य वैकुंठ निज गोविंद  
अंबरीषरायगे वरगळ कोट्ट  
नंबिद भक्तरिगे अभयकोट्ट  
यशोदेय मन उद्धरिसिद  
हयवदन रक्षिसु